

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 313

मंगलवार, 20 जुलाई, 2021/29 आषाढ, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

भारतीय चिकित्सा पर्यटन पद्धति का संवर्धन

313 डा. फौजिया खान:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा पर्यटन पद्धति का संवर्धन करने का प्रस्ताव करती है;
- (ख) यदि हाँ, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और
- (घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय ने भारत को एक चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- i. माननीय मंत्री (पर्यटन) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन बोर्ड का गठन चिकित्सा पर्यटन की वृद्धि में आने वाली बाधाओं का समाधान करना और चिकित्सा पर्यटन, निरोगता पर्यटन एवं योग, आयुर्वेद पर्यटन और आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) में समाविष्ट भारतीय चिकित्सा प्रणाली के किसी अन्य स्वरूप के संवर्धन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट संस्थागत कार्यढांचा प्रदान करने हेतु किया गया है। यह बोर्ड एक ऐसे समावेशी संगठन के रूप में कार्य करता है जो व्यवस्थित तरीके से पर्यटन के इस वर्ग का संवर्धन करता है।
- ii. पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और निरोगता पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रूपरेखा का मसौदा तैयार किया है। दस्तावेज़ को अधिक व्यापक बनाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय रणनीति और रूपरेखा के मसौदे पर चिन्हित केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों और उद्योग हितधारकों से प्रतिक्रिया /टिप्पणियां/सुझाव मंगवाए हैं।

- iii. मंत्रालय द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रोशर, सीडी और अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई है और इसे लक्षित बाजारों में प्रचार के लिए व्यापक रूप से वितरित और परिचालित किया गया है।
- iv. विश्व यात्रा मार्ट, लंदन, आईटीबी, बर्लिन, अरेबियन यात्रा मार्ट आदि जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है।
- v. 'मेडिकल वीजा' पेश किया गया है, जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है। 166 देशों के लिए 'ई-मेडिकल वीजा' भी शुरू किया गया है।
- vi. पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा/पर्यटन सेवा प्रदाताओं और एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, निरोगता सम्मेलनों, निरोगता मेलों और संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
